

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन ट्रांज़िट के तीसरे प्रमाणित COVID-19 केस पर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का बयान

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (10 अप्रैल, 2020) – 9 अप्रैल को, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को सूचना दी गई थी कि इसकी Sandalwood Facility (सैंडलवुड फैसिलिटी) के एक ट्रांज़िट ऑपरेटर (Transit Operator) की COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) की जांच पॉजिटिव आई है। यह ब्रैम्पटन ट्रांज़िट का तीसरा प्रमाणित केस है।

इस समय, सिटी की प्राथमिकता, प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार को सहयोग प्रदान करना और हमारे कर्मचारियों, सवारियों व समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखने में लगातार मदद करना है।

जैसे ही सिटी को इस बारे में सूचित किया गया, साथ मिलकर इसकी जांच करने और अगले कदम निर्धारित करने के लिए, स्टाफ ने तुरंत पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) को संपर्क किया।

प्रभावित ऑपरेटर ने आखिरी बार, 3 अप्रैल को इन रूट्स पर काम किया था:

- रूट 501 ज़ूम क्वीन (Route 501 Zum Queen)
- रूट 502 ज़ूम मेन (Route 502 Zum Main)

जिन लोगों ने उस दिन बसों पर सफर किया, यदि उन्हें कोई लक्षण नहीं है और वे बिल्कुल ठीक हैं, तो वे अपनी रोज़ाना की दिनचर्या को जारी रख सकते हैं। वे पब्लिक हेल्थ को फोन न करें। यदि आपको कोई लक्षण उत्पन्न होते हैं, तो कृपया पील पब्लिक हेल्थ को फोन करें। यदि आपको एमरजेंसी डाक्टरी सहायता की जरूरत है, तो कृपया 911 पर फोन करें।

पील पब्लिक हेल्थ यह भी सूचित करता है कि पब्लिक ट्रांज़िट बस पर सवारियों को केवल उतना ही जोखिम है, जितना आम समुदाय में होने से है। इसके अलावा उन्हें कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं है।

सिटी समुदाय को आश्वस्त करती है कि यह COVID-19 को फैलने से रोकने में हमारे कर्मचारियों, सवारियों और समुदाय की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाती रहेगी।

अधिक बार सफाई और सैनिटाइज़ करने का शेड्यूल पहले की तरह ही प्रभावी रहेगा। इस समय, हर 24 घंटों में सैनिटाइज़ का काम किया जा रहा है। फैसिलिटीज और टर्मिनल्स के लंचरूम्स, मेजों, काउंटर और दरवाजों के हैंडलों को दिन में दो बार साफ किया जा रहा है और सैनिटाइज़ किया जा रहा है।

ऑपरेटर्स और यात्रियों के बीच शारीरिक दूरी जैसे उपायों का समर्थन करने के लिए:

- बसों में आधी सीटों पर ही सवारियां ली जाएंगी।

- पिछले दरवाजे से बस में चढ़ने और निशुल्क किराए जैसे बदलाव प्रभावी हैं। इसके अलावा, हम ऑपरेटर्स और यात्रियों के बीच खाली स्थान प्रदान करने के लिए प्लास्टिक की चेन जैसा बैरियर लगा रहे हैं। मोबिलिटी डिवाइसों वाली सवारियां पहले की तरह अगले दरवाजों से ही बस में चढ़ सकती हैं।
- अधिक व्यस्त रूट्स पर, आर्टिकुलेटिड (अलग-अलग हिस्सों वाली) बसों का उपयोग किया जा रहा है ताकि बस में होने के समय यात्रियों में शारीरिक दूरी को कायम रखने के लिए सहायता की जा सके।
- सीटों की पहचान संकेत से की जा सकती है। सवारियों को इन सीटों पर न बैठने का अनुरोध किया जाता है।
- कम उपयोग होने वाले रूट्स पर, भीड़ वाले घंटों के दौरान और वीकेंड की सेवा रद्द कर दी गई है। शारीरिक दूरी को सहयोग करने और भीड़ से निपटने के लिए, इन रूट्स वाली बसों को अधिक व्यस्त रूट्स के लिए दे दिया गया है।

सिटी, पील पब्लिक हेल्थ में हमारे भागीदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। चूंकि उनके द्वारा जांच की जा रही है, नई जानकारी उपलब्ध होते ही आपको सूचित किया जाएगा।

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca